

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010—पौष 24, शक 1931

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिये जिला होशंगाबाद में दिनांक 16 जनवरी, 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक, की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

1. श्री जी. एस. उईके, अधीक्षक, भू-अभिलेख, होशंगाबाद
2. श्री टी. आर. गायकवाड़, अधीक्षक, भू-अभिलेख, होशंगाबाद
3. श्री सैयद सलाउद्दीन अशरफ, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, होशंगाबाद
4. श्री ओ. पी. भट्ट, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, होशंगाबाद